

प्रेषक,

विम्मी सचदेवा रामन,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

गृह अनुभाग-6

देहरादून: दिनांक- 25 जून, 2018

विषय-

विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग, उत्तराखण्ड के राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अंकित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला विभाग, उत्तराखण्ड के राजपत्रित अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ अंकित किये जाने हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र०सं०	पदनाम	प्रतिवेदक अधिकारी	समीक्षक अधिकारी	स्वीकर्ता प्राधिकारी
1	निदेशक, FSL	पुलिस महानिदेशक	प्रमुख सचिव, गृह	मा० गृह मंत्री/मा० मुख्यमंत्री
2.	संयुक्त निदेशक	निदेशक, FSL	पुलिस महानिदेशक	प्रमुख सचिव, गृह
3.	उप निदेशक	निदेशक, FSL	पुलिस महानिदेशक	प्रमुख सचिव, गृह
4.	वैज्ञानिक अधिकारी	संयुक्त निदेशक/उप निदेशक FSL	निदेशक, FSL	प्रमुख सचिव, गृह

2- इस आशय के पूर्व में निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीया,

(विम्मी सचदेवा रामन)
अपर सचिव।

संख्या- 710 (1)/XX-6/2018-01(11)2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/वैज्ञानिक अधिकारी, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)

अनु सचिव।